



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]
No. 1]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2008/पौष 11, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2008/PAUSA 11, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2008

का.आ. 1(अ).—केन्द्रीय सरकार चीनी उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि भारत में किसी भी चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के प्रयोजनार्थ उपकर के रूप में पन्द्रह रुपये प्रति क्विंटल की दर पर उत्पाद शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा।

2. उपरोक्त दर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी और ऐसी तारीख को या ऐसी तारीख के पश्चात् प्रेषित या परिदत्त की गई चीनी पर लागू होगी।

[फा. सं. 1-37/2003-एसडीएफ]

एन. सन्याल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2008

S.O. 1(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Sugar Cess Act, 1982, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected as a cess for the purpose of Sugar Development Fund Act, 1982, a duty of excise on all sugar produced by any sugar factory in India at a rate of fifteen rupees per quintal of sugar.

2. The above rate shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette and will apply on sugar dispatched or delivered on or after such date.

[F.No. 1-37/2003-SDF]

N. SANYAL, Jt. Secy.